

Date: 24-11-2025

To,
Department of Corporate Services,
BSE Limited
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

SCRIP CODE: 512361 ISIN: INE108G01010

<u>Subject: Submission of Newspaper Publication for Post Offer advertisement in relation</u> to the Open Offer to the public shareholders of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, read with Schedule III and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper publication for Post offer advertisement in relation to the open offer to the public shareholders of the Company, published on Monday, i.e., November 24, 2025, in the following newspapers:

- Financial Express (English All Editions)
- Jansatta (Hindi All Editions)
- Navshakti (Marathi Mumbai Edition)

This information is also available on the Company's website i.e. www.cupidalcobev.com

Kindly take the above information on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Cupid Breweries and Distilleries Limited (Formerly known as Cupid Trades and Finance Limited)

Sachin Rawat CFO & Company Secretary

Encl: a/a

560042, India.

(CIN: L11010MH1985PLC036665)

US, Ukraine & Europe hold talks in Geneva to end war

REUTERS Geneva, November 23

UKRAINIAN, US AND European officials met in Geneva on Sunday to discuss a draft plan presented by Washington to end the war in Ukraine, after Kyiv and its allies voiced alarm over what they saw as major concessions to the aggressor Russia.

On Friday, US President Donald Trump said Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy had until Thursday to approve the 28-point plan, which calls on Ukraine to cede territory, accept limits on its military and renounce ambitions to ioin NATO.

For many Ukrainians, including soldiers fighting on the front lines, such terms would amount to capitulation after nearly four years of fighting in Europe's deadliest conflict since World War Two. On Saturday, Trump said the current proposal for ending the war is not his final offer.

Since the plan was announced, there has been confusion about who was

"LIKE WATCHES, REAL estate

brands and addresses are now

commanding higher prices and

getting them from buyers,"

When Leena Gandhi Tewari,

chairperson of pharmaceutical

giant USV bought two luxury

duplex flats in Naman Xana in

Mumbai's posh Worli area for

₹639 crore or at ₹2.83 lakh per

sq ft, it made headlines as one

of the country's most expen-

sive residential property deals.

Interestingly, apartments sell

between ₹70,000 to ₹100,000

a sq ft in the locality. The

Naman Xana property has just

22 exclusive residences of

6,500 sq ft each and boasts of

Zapkey said that smaller devel-

opers can't match the amenities

offered by big brands. "Buyers

are effectively front-loading the

cost of a better post-possession

experience, he said, adding the

products of top brands offer

agree. Irfan Razack, chairman

and MD at Prestige Estates said

their projects are valued by the

target clientèle as premium

offerings backed by a strong

track record of better quality,

planning and choice of loca-

tions. "This, along with timely

delivery, transparency and cus-

tomer-centric approach has

enabled us to achieve this,"

remember that they use best-

included beverages, which

declined 2% y-o-y on account

of unseasonal rains, home care,

which was flat, and packaged

foods, which grew 2.7% versus

and rural growth is decreasing,

which is visible in October,"

Bora said. "The policy shifts

through calendar year 2025

including incomes tax cuts,

reduction in interest rates and

now GST cuts have favoured

that the domestic FMCG mar-

ket will see a virtuous cycle of

Most FMCG CEOs have said

urban areas," he said.

"The gap between urban

last year.

He said it is pertinent to

Razack said.

Top property developers

Sandeep Reddy, co-founder,

column-free layout.

super liquidity too.

Mohnot said.

Premium for 'experience'

widens in realty projects

Workers clean an area near an apartment building damaged

European allies said they had not been consulted.

ing behind closed doors in Geneva, German Chancellor Friedrich Merz said the goal was to craft a plan acceptable to Ukraine which could be used in a negotiation with Russia. That would likely take time, he

FROM THE FRONT PAGE

in-class architects, designers,

consultants and contractors

with a full commitment to

adhere to the quality standards

speak on the price difference

with local bands in their pro-

jects on the outskirts of Mum-

bai and Gaziabad in NCR, a con-

sultant said the projects

command a premium of 30-

House of Abhinandan Lodha

(HoABL) said amenities and

scale make all the difference. He

said they reserve about 45% of

the land in any project for

amenities and open spaces

which other developers may

The Sarayu in Ayodhya spans

across 75 acres, the next closest

development is just about 5

acres, he said. "Similarly, our

project in Bicholim Goa which

is over 130 acres, is the single

largest project by any developer

in Goa. One can therefore easily

imagine the scale and quality of

the facilities as well as the pro-

ject itself," he said. In short, pre-

mium is paid for the experience.

Anarock Property Consultants,

said improvements in micro-

location precision, such as bet-

ter infrastructure like metro

systems and IT parks, can lead

to price increases of 30-80% in

specific locations."This effect is

often stronger than the impact

of brand recognition," he said.

Demand for FMCG revives in Oct...

Anuj Puri, chairman at

For example, their project

not provide.

A spokesperson at The

40% to local developers.

Though Razack did not

set by the company.

"Right now, I'm not yet con-

G20 meeting in Johannesburg. Before heading to Geneva, US Secretary of State Marco Rubio insisted on X that Washington had authored the plan senators suggesting otherwise.

DPDP rollout

MAPPING DATA ACROSS in-

house systems, vendor partners

and third-party associates is

one of the first and most

resource-intensive tasks, he

largely absent in India until

now, are emerging as another

line item. "With the DPDP rules,

structured data audits become

a recurring requirement and

add to the overall cost of com-

pliance. Smaller firms could see

tech budgets rise by over 30%

as many will be building sys-

tems from scratch," Faisal

Kawoosa, founder and chief

ing is also expected to climb. For

startups, compliance prepared-

ness is increasingly linked to

investor interest and enterprise

contract wins. "Early-stage star-

tups are now allocating

15–20% of their legal budgets

to DPDP readiness, mainly for

privacy-policy design, consent

frameworks and data-process-

ing agreements. For growth-

stage startups selling to large

enterprises, that share rises to

25–30% because compliance is

becoming a deal-breaker in

sales cycles," said Prachi Shri-

vastava, founder, Lawfinity

substantial transition expenses

in the short term, according to

consultants the shift could

eventually reduce the risk of

disputes and data breaches by

streamlining privacy practices.

While companies anticipate

Solutions and Vakil Vetted.

Legal and regulatory spend-

analyst, Techarc, said.

Data audits, a practice

explained.

to increase...

Senator Angus King said Rubio had told senators the plan was not the administration's position, but "essentially

The draft plan, which includes many of Russia's key demands and offers only vague assurances to Ukraine of "robust security guarantees" comes at a perilous moment for the country.

President Ursula von der Leyen said on Sunday that Ukraine's borders cannot be changed by force, its army cannot be left vulnerable to attack and that the European Union must have a central role in a Ukraine peace deal.

Russia has been making

albeit slowly and, according to Western and Ukrainian officials, the advances have been extremely costly in terms of lives lost. The transportation hub of Pokrovsk has been partially taken by Russian forces and Ukrainian commanders say they do not have enough soldiers to prevent small, persistent incursions.

Tesla's AI5 chip is coming soon: Musk

AGENCIES November 23

TESLA IS NEARING the final step of the design process for its AI5 chip and starting work on a new AI6 chip to be deployed in its cars and data centers, Tesla CEO Elon Musk said Sunday in an X post.

"Our goal is to bring a new AI chip design to volume production every 12 months," said Musk, the world's richest per-

"The current version in cars is AI4, we are close to taping out AI5 and are starting work on

Samsung

announced in July that it had secured a \$16.5 billion pact to produce AI semiconductors for Musk said at the time that a

Electronics

new Samsung facility in Texas would be dedicated to making the AI6 chip.

"We expect to build chips at higher volumes ultimately than all other AI chips combined," Musk said in Sunday's post."I'm not kidding."

Musk further invited exceptional AI chip design talent to join Tesla's team, requesting



Our goal is to bring a new AI chip design to volume production every 12 months

applicants to email with evidence of their abilities, particularly in cutting-edge AI applications for chip engineering.

He wrote, "Send an email with three bullet points describing evidence of your exceptional ability to AI_Chips@Tesla.com. We are particularly interested in applying cutting-edge AI to chip

PUBLIC NOTICE

of Insolvency Resolution Process under section 95 of the code has ordered commencement o

the Insolvency Resolution Process against Mr. KODAVATH UMLA residing in Hyderabad on 20-

(Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF $\,$ Mr. KODAVATH <code>UMLA</code> Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Bench-I, Hyderabad in the case

1-2025 vide NCLT Order CP (IB) No. 29/95/HDB/2025 u/s 95 of IBC filed by CANARA BANK fo he Personal Guarantee extended to M/s. MANSAROVAR PEARLS (INDIA) PVT LTD The Creditors of Mr. KODAVATH UMLA are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10-12-2025. to the Resolution Professional at D.No.8-3-677/8, SKD Nagar, C/o Divya Collections, 2nd Floor, Yellareddyguda, Hyderabad-500073 Telangana. The Creditors may submit their claims through Electronic means, or through Courier, or Speed

post or Registered post or by Hand delivery. PARTICULARS OF PERSONAL GUARANTOR

Name of Personal Guarantor Mr. KODAVATH UMLA Address of the Personal Guarantor S/o Redya, R/o H.No. 9-81, Palmakole KV, Rangareddy Shamshabad, Telangana-509 325 Insolvency commencement date 20-11-2025 20-05-2026 Estimated date of closure of Insolvency Resolution Process Last date for submission of claims **DETAILS OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL** Name and registration Number of the Insolvency Name: PVB SUDHAKARA RAO Professional acting as Resolution Professional Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00795/2019-2020/12547 Address and E-Mail of the Resolution D.No.8-3-677/8, SKD Nagar, C/o Divya Collections, Professional, as registered with the Board 2nd Floor Near Ganapathi Complex, Yellareddyguda Hyderabad- 500 073. Telangana

8 Address and e-mail to be used for

correspondence with the Resolution

E Mail ID: pasalasudhakar3@gmail.com Note: Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws P.V.B.SUDHAKARA RAO Date: 24-11-2025 **Resolution Professional**

PUBLIC NOTICE

E Mail ID: pasalasudhakar3@gmail.com

Hyderabad- 500 073. Telangana.

D.No.8-3-677/8, SKD Nagar, C/o Divya Collections,

2nd Floor Near Ganapathi Complex, Yellareddyguda

(Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Bench-I, Hyderabad in the case of Insolvency Resolution Process under section 95 of the code has ordered commencement o the Insolvency Resolution Process against Mr. PANNALAL AGARWAL residing in Hyderabad or 20-11-2025 vide NCLT Order CP (IB) No. 31/95/HDB/2025 u/s 95 of IBC filed by CANARA BANK for the Personal Guarantee extended to M/s. MANSAROVAR PEARLS (INDIA) PVT LTD The Creditors of Mr. PANNALAL AGARWAL are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10-12-2025. To the Resolution Professional at D.No.8-3-677/8, SKD Nagar C/o Divya Collections, 2nd Floor, Yellareddyguda, Hyderabad-500073 Telangana.

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF Mr. PANNALAL AGARWAL

The Creditors may submit their claims through Electronic means, or through Courier, or Speed post or Registered post or by Hand delivery. PARTICULARS OF PERSONAL GUARANTOR Mr. PANNALAL AGARWAL Name of Personal Guarantor Address of the Personal Guarantor S/o Late Mohanlal Agarwal, D.No.21-1-898, Ghansi Bazar, Charminar, Htderabad-500 002, TELANGANA 20-05-2026 Estimated date of closure of Insolvency Resolution Process

Address and E-Mail of the Resolution D.No.8-3-677/8, SKD Nagar, C/o Divya Collections, Professional, as registered with the Board 2nd Floor Near Ganapathi Complex, Yellareddyguda Hyderabad- 500 073. Telangana. E Mail ID: pasalasudhakar3@gmail.com Address and e-mail to be used for

Name and registration Number of the Insolvency

Professional acting as Resolution Professional

D.No.8-3-677/8, SKD Nagar, C/o Divya Collections, correspondence with the Resolution 2nd Floor Near Ganapathi Complex, Yellareddyguda Hyderabad- 500 073. Telangana E Mail ID: pasalasudhakar3@gmail.com

DETAILS OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL

Name: PVB SUDHAKARA RAO

Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00795/2019-2020/12547

Note: Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws. P.V.B.SUDHAKARA RAO Date: 24-11-2025 **Resolution Professional** Place: Hyderabad

PUBLIC NOTICE (Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF Mr. KRISHNA AGARWAL Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Bench-I, Hyderabad in the case of Insolvency Resolution Process under section 95 of the code has ordered commencement of the Insolvency Resolution Process against Mr. KRISHNA AGARWAL residing in Hyderabad or 20-11-2025 vide NCLT order CP (IB) No. 43/95/HDB/2025 u/s 95 of IBC filed by CANARA BANK for the Personal Guarantee extended to M/s. MANSAROVAR PEARLS (INDIA) PVT LTD The Creditors of Mr. KRISHNA AGARWAL are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10-12-2025. to the Resolution Professional at D.No.8-3-677/8, SKD Nagar C/o Divya Collections, 2nd Floor, Yellareddyguda, Hyderabad-500073 Telangana.

The Creditors may submit their claims through Electronic means, or through Courier, or Speed post or Registered post or by Hand delivery. PARTICULARS OF PERSONAL GUARANTOR Mr. KRISHNA AGARWAL Name of Personal Guarantor Address of the Personal Guarantor S/o. SATYAJEET AGARWAL D.No.3-6-469/1/1, Street No.6,

Himayatnagar, Behind Maruthi Show Room, Hyderabad-29 Insolvency commencement date 20-11-2025 20-05-2026 Estimated date of closure of Insolvency Resolution Process Last date for submission of claims 10-12-2025 **DETAILS OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL** Name and registration Number of the Insolvency Name: PVB SUDHAKARA RAO rofessional acting as Resolution Professional Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00795/2019-2020/12547 Address and E-Mail of the Resolution D.No.8-3-677/8, SKD Nagar, C/o Divya Collections, ofessional, as registered with the Board 2nd Floor Near Ganapathi Complex, Yellareddyguda Hyderabad- 500 073. Telangana

E Mail ID: pasalasudhakar3@gmail.com D.No.8-3-677/8, SKD Nagar, C/o Divya Collections, Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution 2nd Floor Near Ganapathi Complex, Yellareddyguda Hyderabad- 500 073. Telangana. E Mail ID : pasalasudhakar3@gmail.com Note: Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. in accordance

with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws P.V.B.SUDHAKARA RAO Place: Hyderabad **Resolution Professional** FORM G

M/S. LOKAA HOUSING PRIVATE LIMITED OPERATING IN THE REAL ESTATE ACTIVITIES AT CHENNAI, TAMIL NADU (Under Regulation 36A(1)of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR

	Medical	TANTICOLANS
1	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	M/s. LOKAA HOUSING PRIVATE LIMITED CIN: U45500TN2018PTC123743
2	Address of the registered office	Plot No.5 / Flat No.101, 1st Floor No.14 Kannappa Nagar Extension, Thiruvanmiyur, Chennai, Tamil Nadu, India, 600 041.
3	URL of website	NA .
4	Details of the place where the majority of fixed assets are located	Plot No.5 / Flat No.101, 1st Floor No.14 Kannappa Nagar Extension, Thiruvanmiyur, Chennai, Tamil Nadu, India, 600 041.
5	Installed capacity of main products / services	The Company's major revenue is from the construction and sale of apartments.
6	Quantity and value of main products / services sold in last	As per Audited Financials, turnover from operations for the FY 2021-2022 is NIL

Number of employees / workmen Further details including last Can be collected from the office of RP available financial statements

lists of creditors are available at: Huzur Road, Coimbatore 641018 Eligibility for resolution applicants Ph.no:73730 52341/ 94888 10404 under section 25(2)(h) of the [email to lokaahousing.cirp@gmail.com / Code is available at :

(with schedules) of two years,

ipeadmin@sppgroups.com] in Last date for receipt of

09th December 2025 expression of interest Date of issue of provisional list of

19th December 2025 prospective resolution applicants Last date for submission of 24th December 2025 (Within 5 days from objections to provisional list the date of issue of Provisional List)

Date of issue of final list of 03rd January 2026 prospective resolution applicants Date of issue of information 03rd January 2026 memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to

prospective resolution applicants Last date for submission of 02nd February 2026 resolution plans

Date : 22.11.2025

Place : Coimbatore

16 Process email ID to submit EOI lokaahousing.cirp@gmail.com

CA. Mahalingam Suresh Kumar Designated Partner and Authorized Signatory M/s. SPP Insolvency Professionals LLP [IPE] acting as RP of M/s. Lokaa Housing Private Limited

IBBI Reg No. IBBI/IPE-0143/IPA-1/2022-23/50033

M/s. SPP Insolvency Professionals LLP.

2nd Floor, CODISSIA GD Naidu Towers,

during a Russian drone strike in Dnipro, Ukraine, on Sunday REUTERS involved in drawing it up.

> As the officials began meet-Merz said on the sidelines of a

vinced we're going to get the solution President Trump wants in the next few days,"

after remarks from some US

the wish-list of the Russians."

European Commission

gains on parts of the front,

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CUPID BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED Corporate Identification Number: L11010MH1985PLC036665;

Registered Office: Block No. 2, Parekh Nagar, Near BMC Hospital, S V Road, Kandivali (West), Mumbai, Maharashtra, 400067 Tel. No.: +91-8097894999; Email: cs@cupidalcobev.com: Website: www.cupidalcobev.com; OPEN OFFER BY ERRAMILLI VENKATACHALAM PRASAD ("ACQUIRER 1") AND RODRIGUES BHAGVANDAS LILY ("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") TOGETHER WITH ERRAMILLI RISHAB ("PERSON ACTING IN CONCERT" OR "PAC") TO ACQUIRE UPTO 9,60,000* (NINE LAKH SIXTY THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 71.80/- (RUPEES SEVENTY ONE POINT EIGHT ZERO ONLY) ("OFFER PRICE") INCLUDING INTEREST OF ₹ 11.80\$/- (RUPEES ELEVEN POINT EIGHT ZERO ONLY), PAYABLE IN CASH PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 6,89,28,000/- (RUPEES SIX CRORE EIGHTY NINE LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND ONLY), TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CUPID BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED ("TARGET COMPANY") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") ("OFFER" OR "OPEN OFFER"). *As per SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Open Offer size under regulation 7(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, shall be

for at least 26% (twenty six percent) of the total share capital of a target company, as of 10th working day from the closure of the tendering period. However, the public shareholding of the Target Company is 1.85% (one point eight five percent) of the Existing Voting share Capital of the Target Company excluding the public preferential allottees who are considered as Deemed PAC to Acquirers for this open offer and are ineligible to participate in the open offer. Accordingly open offer is made to public shareholders who holds 1.85% (one point eight five percent) of Existing Voting share Capital of the Target Company. \$The interest is calculated @ 10% (Ten Percent) per annum for the period of 717 (Seven hundred and seventeen) days starting from December 08, 2023, upto November 24, 2025 (Date of payment to successful Public Shareholders who tender their

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirers and the PAC, in connection with the offer made by the Acquirers and the PAC, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated February 07, 2025 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement published on February 14, 2025 in Financial Express (English) all editions, Jansatta (Hindi) all editions and Navshakti (Marathi) Mumbai Edition – Being the regional language of Mumbai, where the Registered Office of the Target Company is located and the Stock Exchange where the equity shares of the Target Company are listed ("DPS"); (c) the Draft Letter of Offer dated February 24, 2025 ("**DLOF**") (d) the Corrigendum dated September 23, 2025 ("**First Corrigendum**") (e) the Corrigendum dated October 13, 2025 ("Second Corrigendum") (f) the Letter of Offer dated October 13, 2025 ("LOF") along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement; and (g) the offer opening public announcement was published on October 24, 2025 in all the newspapers in which the DPS was published.

This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published. Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open

Sr. No	Particulars	Details
1	Name of the Target Company:	Cupid Breweries and Distilleries Limited
2	Name of the Acquirer:	Erramilli Venkatachalam Prasad ("Acquirer 1")
		2. Rodrigues Bhagvandas Lily ("Acquirer 2")
3	Name of the PAC:	1. Erramilli Rishab ("PAC")
4	Name of the Manager to the Offer:	Saffron Capital Advisors Private Limited
5	Name of the Registrar to the Offer:	Cameo Corporate Services Limited
6	Offer Details:	
	a. Date of Opening of the Offer:	Monday, October 27, 2025
	b. Date of Closure of the Offer:	Monday, November 10, 2025
7	Date of Payment of Consideration:	Monday, November 17, 2025

Proposed in the LOF (1)

(assuming full acceptances

Actuals (1)

7. Details of Acquisition Sr. No. Particulars

		,	Offer)		
7.1	Offer Price (per equity share)	₹ 7	1.80/-	₹ 71	.80/-
7.2	Aggregate number of shares tendered	9,60	0,000	17	7 (2)
7.3	Aggregate number of shares accepted	9,60	0,000	17	7 (2)
7.4	Size of the Offer (Number of Equity hares	₹ 6,89,	28,000/-	₹ 1,22	20.60/-
	multiplied by offer price per share)				
7.5	Shareholding of the Acquirer along with PAC	N	Nil	N	lil
	before Agreements/Public Announcement	(0.0	00%)	(0.0	0%)
7.6	Equity Shares proposed to be acquired which	2,60,3	32,167	2,60,32	2,167 ⁽³⁾
	triggered the regulations	(50.	08%)	(50.0	08%)
7.7	Equity Shares acquired after Detailed Public				
	Statement (4)				
	Number of shares acquired		Nil	N	lil
	Price of the shares acquired	N	IA	N	Α
	% of the shares acquired	(0.0	00%)	(0.0	0%)
7.8	Equity Shares Acquired by way of Open Offer				
	Number	9,60	0,000	17	(5)
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	(1.8	35%)	(0.0	0%)
7.9	Post offer shareholding of Acquirers and the PAC			(1	
	Number	2,69,9	92,167	2,60,32	2,184 ⁽⁶⁾
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	(51.	92%)	(50.0	08%)
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer (7)	Post Offer	Pre Offer (7)	Post Offer
	Number	9,60,000	2,49,90,835	9,60,000	2,59,50,818
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	1.85%	48.08%	1.85%	49.92%
Notes:					

11.8

(1) Percentages disclosed in the table above are computed basis the Existing Voting Share Capital of Target Company. (2) 17 Equity Shares were only tendered in dematerialized form.

(3) The Acquirers were allotted equity shares pursuant to preferential issued on April 11, 2025, which are parked in a separate demat escrow account as on date and yet to be transfer to the respective individual account of the Acquirers. (4) Excluding those Equity Shares specified in Sr. No. 7.6 and 7.8.

(5) Equity Shares acquired by the Acquirer 1 pursuant to Open Offer. (6) Including 2.60.32,167 Equity Shares acquired by the Acquirers pursuant to preferential issued on April 11, 2025. (7) Representing 1.85% (One Point Eight Five Percent) of the Existing Voting share Capital of the Target Company on a fully

8. The Acquirers and the PAC accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also

for the obligations under SEBI (SAST) Regulations. **9.** A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at (<u>www.sebi.gov.in</u>), BSE at

(www.bseindia.com), Manager to the Offer at (www.saffronadvisor.com) and the registered office of the Target Company. All undefined capitalized terms used herein shall have the same meaning as ascribed to such terms in the Letter of offer.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE REGISTRAR TO THE OFFER **ACQUIRERS AND THE PAC**

Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-Kurla Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 49730394;

Website: www.saffronadvisor.com Investor Grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com

Place: Telangana, Date: November 22, 2025

ter in November as the full impact of the GST 2.0 reforms plays out in the domestic FMCG market.

Bizom says that the trends

· · · · · energising ideas

Email id: openoffers@saffronadvisor.com

SEBI Registration No.: INM000011211 Validity: Permanent Contact Person: Saurabh Gaikwad / Satej Darde

epaper.financialexpress.com

Cameo Corporate Services Limited Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India Tel No.: +91 44 40020700 / 40020706/ 40020741 /40020780 Email: priya@cameoindia.com

> Website: www.cameoindia.com Investor grievance id: investor@cameoindia.com **SEBI Registration Number:** INR000003753 Validity: Permanent Contact Person: Sreepriya K

GROWTH REBOUNDS Category-wise (value growth, in %) (Oct 2025) FMCG growth: 10 months of CY2025 **-2** Beverages 20 | All-India Urban Rural Chocolates & Confectionary Commodities 18.6 Dairy Products

16 (value growth, in %) Packaged Foods **2.7**

CATEGORIES, AMONG growth following a normalisacommodities, BRANDED tion of the trade pipeline after GST cuts were initiated in Sepchocolates & confectionary, personal care and dairy prodtember. While most firms, ucts reported a year-on-year including HUL, Dabur, Marico and Godrej Consumer had growth of 9.2%, 10.1%, 11.8% and 18.6% each for the indicated this improvement month under review. Laggards would show up in November, Bizom data suggests it is visi-

> growth, experts said. In an interview with FE last week, Marico's MD & CEO Saugata Gupta said that he saw GST reduction being transformational for the FMCG sector.

ble in October itself, pointing

to the speed with which GST

2.0 reforms have ushered

"We are far more optimistic about the sector now than we were earlier. Rural growth has been looking up for multiple quarters now. Urban growth was slower, largely at the mass end of the market, but we are witnessing steady improvement. With the GST cuts, products have become affordable to consumers," he said. Gupta also said that he saw

Home Care **0.5**

Personal Care

a shift from unbranded to branded consumption on account of GST cuts, especially, in foods, which would aid growth for branded players operating in the category. Angshu Mallick, executive deputy chairman, AWL Agri Business, best-known for its Fortune brand of edible oil, said he saw the consumption of branded pulses and commodities getting a fillip away from loose and unbranded consumption due to the rationalisation of GST rates.

visible in October will get bet-

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26" (क्यनी (निगमन) नियम् २०१४ के नियम ३० के अनुसरण में) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम,

2014 के नियम 30 के उपनियम (5)

के मामले में हनीवेल होमटाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन जिसका पंजीकृत कार्यालय । 1120–21, 11वां पलोर, डोंउन ए, डीएलएफ टॉवर, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साऊष दिल्ली—110025, नई दिल्ली, इंडिया में रिधत है

ताम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपने केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य के बैगलोर नें स्थानांतरित करने के लिए तारीख 27 जून, 202**5** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएकत में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं। रुपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित रथानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) **में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के लाथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्डित दीनदयाल अल्वोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक देवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और (सकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरांक्त फंरीकृत प्रत्यंतय के पते पर भी भेजेगा।

कृते की ओर र इनीवेल डोमटाचन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन देनाक | 12,11,2025 प्रशांत बलराम खान : बॅगलोर डीआईएन : 10788222

STATE CONSUMER **DISPUTES REDRESSSAL** COMMISSION

'A' BLOCK 1st Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002 No. FA-548/23 Dated 28/07/2025 In the Matter of: Devyani International Ltd.

Vs. Mr. Kamal Anand Mr. Kamal Anand 45/7 Rajpur Road, Civil Lines, Delhi-110054

Whereas an Appeal / complaint against you (Copy Enclosed has been made to this Commission for Adjudication, You are hereby summoned to appear in this Commission in person or by a pleader or an authorized agent dyly instructed and able to answer all the material question in relation to the appeal/complaint on 18/09/2025 at 10:30 a.m. sharp. you are further directed to file complete reply of your defense on the aforesaid date and take note that default of your appearance on the said date the matter will be heard and determined in your absence. given under my hand and the seal of this Commission on this 28/07/2025 Registrar State Commission

फार्म नं. 3 (विनियमन देखें - 13 (1)(a)) ऋण वसुली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) प्रथम तल, एससीओ ३३-३4-३5, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त जगह आवंटित) Case No.: OA/500/2025

ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत समन। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

कुसुम बाला एवं अन्य

To, 1. प्रतिबादी नंबर 2 श्री नरेश पुत्र C/o राजेंद्र, गली नंबर 2, पकान नंबर- 312, साकेत, नई दिल्ली 110017, दूसरा पता: श्री नरेश पुत्र C/o राजेंद्र, मकान नंबर- 390, जीतुवाला जोहर, स्यामबाग के पास, भिवानी, हरियाणा- 127021

जबकि, OA/500/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 23/09/2025 को सूचीबद्ध किया गया था। जबकि यह माननीय अधिकाण ने आपके खिलाफ रुपये 5356554/- ऋण की वसुली के लिए अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर समन/ नोटिस जारी किया है (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन पत्र)।

अधिनिचम की घारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:- (1) समन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कि प्रार्थना की गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए; (2) मूल आवेदन के क्रमांक नंबर 30 के तहत आवेदक हारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या आस्तियों के विवरण का खुलासा करना ; (3) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सनवाई और निपटान के लंबित रहने तक. मल आवेटन के क्रमांक नंबर 30 के तहत प्रकट की गई प्रतिचत संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और आस्तियों से निपटने या निपटाने से रोका गया है; (4) आप बिक्री, पटटे या अन्य के माध्यम से, उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, किसी भी संपत्ति को छोड़कर, जिस पर प्रतिभृति हित बनाया गया है और/या अन्य संपत्ति और आस्तियां जो अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आबेदन क्रम संख्या ३ ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई हैं; (5) आप व्यापार के सामान्य क्रम में प्रतिभत संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और आस्तियों की बिकी से प्राप्त आय के लिए जिम्मेदार होंगे और इस तरह की बिकी की आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको, आवेटक को एक प्रति के साथ लिखित विवरण

दाखिल काने और दिनांक 26/11/2025 को प्रातः 10:30 बजे रोजस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर हारा दिनांक 24.09.2025 को दिया गया। ऋण वसूनी अधिकरण-।।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यांसय >- महिन्द्रा रूरल डाउसिंग फाइनैस लिमिटेड, साधना डाउस, द्वितीय तल, 570, पीबी मार्ग, वर्जी, मुंबई-400 018, भारत, फोम : +91 22 86523500, फैक्स : +91 22 24972741 **शाखा कार्यालय :** 111ए ∕ 6, द्वितीय तल, पंजाब ऐंड सिंघ बैंक के ऊपर, जीटी शेंड, अशोक नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208012

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पवित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन। अधोहस्ताक्षरी उपरोक्त अधिनियम के तहत महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पिरात प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(री) ("उक्त कर्जदारगण") से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशिया चुकाने की मांग की गई थी, जिसकी विषयवस्तु नीचे पुनर्-प्रस्तुत की गई है।

斯. ギ	कर्जदार(रॉ) / गारंटर(रॉ) का नाम	कर्जदार(रॉ) / गारंटर का पता	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)
1.	1. কালपुर স্থাজা ঘল্ড্ড্ন :— 812842/ XSEMKNP00689368	मकान नंबर ८९, के-ब्लॉक, यशोदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-208011. (पीबाइल नंबर +91-8303848267)	12−08−2025 ₹. 8,50,928.45 / −	प्राइवेट प्लॉट नंबर 41ए, आराजी नंबर 2061, जो ग्राम बुधपुर मछरिया, कानपुर—208021, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित हैं, पूरब : प्लॉट नंबर 40,
	नीटू प्रजापति (कर्जदार) सुरेश प्रजापति (सह–कर्जदार)	(HI41\$01 HI4Y +91-8303848267)		पश्चिम : प्लॉट नंबर 41बी, उत्तर : 6.09 मीटर रोड, दक्षिण : प्लॉट नंबर 53, क्षेत्रफल : 45,99 वर्ग मीटर

चपरोक्त के अनुसरण में एतदहारा, उक्त कर्जवारों को एक बार पुनः सूचना दी जाती है कि वे महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को यहां ऊपर वर्णित राशि, ऊपर वर्णित तिथि(याँ) से आगे बकाया के भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज के साथ, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुका दें।

उपरोक्त कर्जदारों को एतदद्वारा कम्पनी को उपरोक्तानुसार भुगतान करने की सलाह दी जाती है. जिसमें असफल रहने पर, कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंग की जाएगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे।

स्थान : कानपुर, तिथि : 24-11-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CUPID BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED

Corporate Identification Number: L11010MH1985PLC036665; Registered Office: Block No. 2, Parekh Nagar, Near BMC Hospital, S V Road, Kandivali (West), Mumbai, Maharashtra, 400067 Tel. No.: +91-8097894999; Email: cs@cupidalcobev.com: Website: www.cupidalcobev.com; OPEN OFFER BY ERRAMILLI VENKATACHALAM PRASAD ("ACQUIRER 1") AND RODRIGUES BHAGVANDAS LILY ("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") TOGETHER WITH ERRAMILLI RISHAB ("PERSON ACTING IN CONCERT" OR "PAC") TO ACQUIRE UPTO 9,60,000* (NINE LAKH SIXTY THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 71.80/- (RUPEES SEVENTY ONE POINT EIGHT ZERO ONLY) ("OFFER PRICE") INCLUDING INTEREST OF ₹ 11.80\$/- (RUPEES ELEVEN POINT EIGHT ZERO ONLY), PAYABLE IN CASH PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 6,89,28,000/- (RUPEES SIX CRORE EIGHTY NINE LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND ONLY), TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CUPID BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED ("TARGET COMPANY") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS. 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

*As per SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Open Offer size under regulation 7(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, shall be for at least 26% (twenty six percent) of the total share capital of a target company, as of 10th working day from the closure of the tendering period. However, the public shareholding of the Target Company is 1.85% (one point eight five percent) of the Existing Voting share Capital of the Target Company excluding the public preferential allottees who are considered as Deemed PAC to Acquirers for this open offer and are ineligible to participate in the open offer. Accordingly open offer is made to public shareholders who holds 1.85% (one point eight five percent) of Existing Voting share Capital of the Target Company.

\$The interest is calculated @ 10% (Ten Percent) per annum for the period of 717 (Seven hundred and seventeen) days starting from December 08, 2023, upto November 24, 2025 (Date of payment to successful Public Shareholders who tender their This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited

("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirers and the PAC, in connection with the offer made by the Acquirers and the PAC, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated February 07, 2025 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement published on February 14, 2025 in Financial Express (English) all editions, Jansatta (Hindi) all editions and Navshakti (Marathi) Mumbai Edition – Being the regional language of Mumbai, where the Registered Office of the Target Company is located and the Stock Exchange where the equity shares of the Target Company are listed ("DPS"); (c) the Draft Letter of Offer dated February 24, 2025 ("**DLOF**") (d) the Corrigendum dated September 23, 2025 ("**First Corrigendum**") (e) the Corrigendum dated October 13, 2025 ("Second Corrigendum") (f) the Letter of Offer dated October 13, 2025 ("LOF") along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement; and (g) the offer opening public announcement was published on October 24, 2025 in all the newspapers in which the DPS was published.

This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published. Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open

Sr. No	Particulars	Details				
1	Name of the Target Company:	Cupid Breweries and Distilleries Limited				
2	Name of the Acquirer:	Erramilli Venkatachalam Prasad ("Acquirer 1")				
		2. Rodrigues Bhagvandas Lily (" Acquirer 2 ")				
3	Name of the PAC:	1. Erramilli Rishab (" PAC ")				
4	Name of the Manager to the Offer:	Saffron Capital Advisors Private Limited				
5	Name of the Registrar to the Offer:	Cameo Corporate Services Limited				
6	Offer Details:					
	a. Date of Opening of the Offer:	Monday, October 27, 2025				
	b. Date of Closure of the Offer:	Monday, November 10, 2025				
7	Date of Payment of Consideration:	Monday, November 17, 2025				
7. Deta	7. Details of Acquisition:					

Sr. No.	Particulars	(assuming fu in this	n the LOF ⁽¹⁾ II acceptances 3 Offer)	Actua	ils ⁽¹⁾
7.1	Offer Price (per equity share)	₹ 7	1.80/-	₹ 71	.80/-
7.2	Aggregate number of shares tendered	9,60	0,000	17	(2)
7.3	Aggregate number of shares accepted	9,60	0,000	17	(2)
7.4	Size of the Offer (Number of Equity hares multiplied by offer price per share)	₹ 6,89,	28,000/-	₹ 1,22	20.60/-
7.5	Shareholding of the Acquirer along with PAC	1	Vil	N	il
	before Agreements/Public Announcement (0.00%)		00%)	(0.0	0%)
7.6	Equity Shares proposed to be acquired which	2,60,	32,167	2,60,32,167 ⁽³⁾	
	triggered the regulations	(50.	08%)	(50.0	08%)
7.7	Equity Shares acquired after Detailed Public Statement (4)				
	Number of shares acquired	1	Nil	N	il
	Price of the shares acquired	N	NA	NA NA	
	% of the shares acquired	(0.0	00%)	(0.00%)	
7.8	Equity Shares Acquired by way of Open OfferNumber% of Fully Diluted Equity Share Capital	9,60,000 (1.85%)		17 ⁽⁵⁾ (0.00%)	
7.9	Post offer shareholding of Acquirers and the PAC				
	Number	2,69,92,167 (51.92%)		2,60,32	,184 (6)
	% of Fully Diluted Equity Share Capital			(50.08%)	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer (7)	Post Offer	Pre Offer (7)	Post Offer
	Number	9,60,000	2,49,90,835	9,60,000	2,59,50,818
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	1.85%	48.08%	1.85%	49.92%

(1) Percentages disclosed in the table above are computed basis the Existing Voting Share Capital of Target Company. (2) 17 Equity Shares were only tendered in dematerialized form.

(3) The Acquirers were allotted equity shares pursuant to preferential issued on April 11, 2025, which are parked in a separate demat escrow account as on date and yet to be transfer to the respective individual account of the Acquirers.

(4) Excluding those Equity Shares specified in Sr. No. 7.6 and 7.8. (5) Equity Shares acquired by the Acquirer 1 pursuant to Open Offer.

(6) Including 2,60,32,167 Equity Shares acquired by the Acquirers pursuant to preferential issued on April 11, 2025. (7) Representing 1.85% (One Point Eight Five Percent) of the Existing Voting share Capital of the Target Company on a fully

8. The Acquirers and the PAC accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at (www.sebi.gov.in), BSE at (www.bseindia.com), Manager to the Offer at (www.saffronadvisor.com) and the registered office of the Target Company.

All undefined capitalized terms used herein shall have the same meaning as ascribed to such terms in the Letter of offer. ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE REGISTRAR TO THE OFFER

SAFFRON

ACQUIRERS AND THE PAC

Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-Kurla Road, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 49730394

Email id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor Grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com

SEBI Registration No.: INM000011211 Validity: Permanent Contact Person: Saurabh Gaikwad / Satej Darde

Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai – 600 002, Tamil Nadu, India.

Tel No.: +91 44 40020700 / 40020706/ 40020741 /40020780 Email: priya@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Investor grievance id: investor@cameoindia.com SEBI Registration Number: INR000003753 Validity: Permanent

♦ FINANCIAL EXPRESS

Cameo Corporate Services Limited

Contact Person: Sreepriya K

Place: Telangana, Date: November 22, 2025

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकत एवं निगमित कार्याः: 201-202, द्वितीय मंजिल, साठ्य एंड स्कवायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्त व नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना आमजन तथा एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सुचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभृत ऋणदाता की गिरवी / प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया था. प्रत्याभत ऋणदाता ''जैसे है जहाँ हैं'' जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहे हैं। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार हैं-

निविदा सूचना

ऋणी/सह—ऋणी/जमानती/ बंधककर्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक	1 3(2) डिमांड नोटिस की राशि व दिनांक	कब्जे की दिनांक	संपत्ति का विवरण (प्रतिभूति आस्ति)	संपत्ति का आरक्षित मूल्य		निविदा खोले जाने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलानी का स्थान आवास फाईनेन्सियर्स लि.
सरिता सरिता, राम हेत सम्पत खाता सं. : LNLKO02122-230283060 व LNLKO09322-230283982	हैं 28,90,268.00/- व हैं 10,60,231.00/- बकाया दिनांक 18 नवम्बर 2025	06 मार्च 2024 ₹ 2364050/- व ₹ 814286/- बकाया दिनांक 06 मार्च 2024		प्लॉट नं. पी-4 पर निर्मित मकान भूमि के साथ, क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट खसरा नं. 302 का केवल भाग, देवपुर में स्थित वार्ड केसरीखेडा परगना, तहसील व जिला-लखनऊ क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट	₹ 4151000/-	₹ 415100/-	प्रात:11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 26 दिसम्बर 2025	पहली मॅजिल, प्रिंसेसन टॉवर, बिल्डिंग नं. 28/35, 16-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, उत्तरप्रदेश-भारत

लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित घरोडर राशि के चैक/बैंकर्स चैक/माँग ड्राफ्ट जो कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय हो, नीलामी से पहले कार्य दिवस के दौरान आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाएं आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात निविदाकर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन घरोहर राशि लौटा दी जायेगी। 2. सफल निविदाकर्ता को 2.5 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा तथा शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 1 5 दिन के अन्दर जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना बैंक में जब्त समझी जायेगी। 3. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये बोली खीकार अथवा अखीकार करने या निविदा स्थिगत करने का पूर्ण अधिकार है। निविदा जमा कराने व निविदा खोलने वाली दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस वाले दिन होगी। 4. सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड 201–202, दूसरी मंजिल, साउच एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302020 **रमेश चौघरी–8690001 158 मोटः**– यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ताके लिए भी नियम 9 (1) /8(6) के अधीन 1 5/30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा कि यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर ही विक्रय की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड

दिनांक: 24.11.2025

स्थान : उत्तरप्रदेश

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703 Website: homefirstindia.com

Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

संदर्भ : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना यहां नीचे वर्णित इसकी संबंधित तिथियों को जारी की थी, जिसमें आप/निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशिसंबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। आप / सभी कर्जदार, तथापि, उक्त बकाया राशि नियत समय के भीतर चुकाने में असफल रहे हैं, अतः होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड ने सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पिठत तदधीन नियमों के प्रावधान के तहत उसकों प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है :

क्र. सं.	कर्जदारों / सह—कर्जदारों / गारंटरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि (आईएनआर में)	कब्जा की तिथि
1.	बहादुर, नीतू	9581, पट्टा नंबर 9581, मिसल नंबर 462, खसरा नंबर 855, पंचायत समिति तालेडा, तहसील डाबी, जिला बूंदी, डाबी, राजस्थान—323022, चौहद्दी — पूरब : रोड, पश्चिम : नसीर भाई का मकान, उत्तर : रोड, दक्षिण : गोपाल गुर्जर की भूमि	03-02-2025	6,97,872	20-11-2025

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार / गारंटर और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उपरिवर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। रतद्द्वारा विशेष रूप से कजेदारों /गारटरो तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उपरि सदर्भित सम्पत्तियों /प्रतिभूत आस्तियों अथवा उसके किसी भी भाग के सबध में को संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्तियों / प्रतिभृत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की उक्त सम्पत्तियों / प्रतिभृत आस्तियों के संबंध में

यहां ऊपर वर्णित बकाया राशि, जो पूर्ण भुगतान किए जाने तक उस पर आगे ब्याज के साथ देय होगी, के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी, तिथि : 24-11-2025 होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

Truhome

टूहों म फाइनैंस लिभिटेड (पूर्वतः श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिभिटेड) प्रधान कार्यालय : लेवल-3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051;

वसली की सरक्षित मल्य नीलामी की सम्पर्क व्यक्ति

परिशिष्ट-IV-A [नियम ८(६) का प्रावधान देखें]

टेलीफोन : 1800 102 4345 ; वेबसाइट : http://www.truhomefinance.in पंजीकृत कार्यालय : एल 1 एवं एल 2, एसबीआई बैंक के ऊपर, गुरुद्वारा रोड, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार / रों तथा गारंटर / रों को सचित किया जाता है कि टहोम फाइनैंस लिमिटेड (पर्वतः मैसर्स श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात के पास बंधक / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा ट्रहोम फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, तालिका में वर्णित अनुसार कर्जदारों और गारंटरों की तरफ ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड की बकाया देय राशि की वसूली के लिए 31–12–2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे के बीच ई–नीलामी के माध्यम से "जैसी

है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है वहां है" के आधार पर बेची जाएंगी। कर्जदारों एवं गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि एवं निरीक्षण की तिथि भी निम्नानुसार हैं।

पर्यापार/ सह–कर्जदारों /	राशि एवं	(रू.), एवं बोली वृद्धि	तिथि एवं	विवरण — (एओ तथा
गारंटरों / बंधकदाताओं का नाम मैसर्स केशव टेक्सटाइल्स	मांग सूचना की तिथि ऋण खाता संख्या	बाला वृद्ध रु. 1,58,85,000 / —	समय 31—12—	निपटान टीम)
इसके स्वामी/भागीदार/प्रबंधक निदेशक/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से	SLPHGPRK0003194	(रूपये एक करोड़	2025	श्री निखिल कुमार फोन नं
कार्यालय पता : ई–16/871, गणेश गली, बापा नगर, पदम सिंह रोड, करोल बाग, मध्य		अठ्ठावन लाख		7053869593
दिल्ली—110005	₹. 1,10,46,914 / -	पिच्यासी हजार मात्र)		
अन्य पता : इसके स्वामी / भागीदार / प्रबंधक निदेशक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से	(रूपये एक करोड़ दस	बोली वृद्धि :	समय : पूर्वा	
श्री विवेक गुप्ता	लाख छियालीस हजार	₹. 10,000 / —	11.00 बजे	श्री अशफाक पटका
मकान संख्या 16/702—ई (पुराना नंबर 702), ऊपरी भूतल, ब्लॉक— ई—16, बापा नगर,	नौ सौ चौदह मात्र)	और ऐसे गुणकों में	से अप. 01.00 बजे तक	फोन नं
करोल बाग, दिल्ली—110005	09 जून 2025 तक + आगे संविदात्मक दर पर	धरोहर राशि जमा	बज तक	9819415477
श्री विवेक गुप्ता पुत्र श्री सतीश गुप्ता	ब्याज उक्त सूचना	(ईएमडी) (रू.)		011-40725822
मकान नंबर ए—38, तीसरा तल, न्यू मुल्तान नगर, शकूर बस्ती डिपो, पश्चिम विहार ईस्ट	की प्राप्ति की तिथि	₹. 15,88,500 / -	1 1	
मेट्रो स्टेशन के पास, उत्तर पश्चिम, दिल्ली—110056	से 60 दिन के भीतर	(रूपये पंद्रह लाख		कस्टमर केयर
अन्य पता : मकान नंबर 16 / 702—ई (पुराना नंबर 702), ऊपरी भूतल, ब्लॉक— ई—16, बापा		अठासी हजार		नंबर :- 022 -
नगर, करोल बाग, नई दिल्ली—110005		पांच सौ मात्र)		40081572
श्रीमती प्रिया गुप्ता सी/ओ श्री विवेक गुप्ता	मांग सूचना की तिथि :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
मकान नंबर ए—38, तीसरा तल, न्यू मुल्तान नगर, शकूर बस्ती डिपो, पश्चिम विहार ईस्ट	16—जून—2025	ईएमडी जमा करने		
मेट्रो स्टेशन के पास, उत्तर पश्चिम, दिल्ली—110056		हेतु अंतिम तिथि :		सम्पत्ति निरीक्षण
अन्य पता : मकान नंबर 16 / 702—ई (पुराना नंबर 702), ऊपरी भूतल, ब्लॉक— ई—16, बापा		29—दिसम्बर—2025		तिथि
नगर, करोल बाग, नई दिल्ली—110005		समय पूर्वा. 10 बजे से अप. 05 बजे तक		26—दिसम्बर—2025 समय पूर्वा. 11.00 बजे से
मैसर्स राधेकेशव टेक्सटेक प्राइवेट लिमिटेड		स अप. 05 बज तक		मध्या. 12.00 बजे तक
इसके स्वामी / भागीदार / प्रबंधक निदेशक / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से				1041. 12.00 401 (14)
दुकान संख्या 421, भूतल, नया नंबर 7053, रामेश्वरी, नेहरू नगर, करोल बाग,				
दिल्ली—110005				
कब्जा की तिथि एवं प्रकार 13—11—2025 एवं भौतिक कब्जा				
ज्ञात ऋणभार ज्ञात नहीं				
सं	। गत्ति का विवरण		-	

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति संख्या 16 / 702—ई (पुराना नंबर 702), संपूर्ण ऊपरी भूतल, क्षेत्रफल परिमाप 52 वर्ग गज, संपत्ति ब्लॉक—ई—16, बापा नगर, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 में स्थित है। चौहददी :- पर्व : अन्य संपत्ति, पश्चिम : अन्य संपत्ति, उत्तर : गली ८ फीट, दक्षिण : गली 10 फीट

कर्जदारों / सह–कर्जदारों / गारंटरों / बंधकदाताओं का नाम	वसूली की राशि एवं मांग सूचना की तिथि	सुरक्षित मूल्य (रू.), एवं बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति विवरण — (एओ तथा निपटान टीम)
श्रीमती हरप्रीत कौर पत्नी श्री हरदेव सिंह मकान नंबर 2006/1, रेलवे रोड, टीकरी खुर्द, गांव—नरेला, उत्तर पश्चिम, दिल्ली—110040 अन्य पता : मकान नंबर 2006/1, भू तल, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली—110040 अन्य पता : मकान नंबर 2006/1, प्रथम तल, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली—110040 श्री हरदेव सिंह पदम पुत्र श्री करनैल सिंह पदम मकान नंबर 2006/1, रेलवे रोड, टीकरी खुर्द, गांव—नरेला, उत्तर पश्चिम, दिल्ली—110040 अन्य पता : मकान नंबर 2006/1, भू तल, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली—110040 अन्य पता : मकान नंबर 2006/1, प्रथम तल, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली—110040 कब्जा की तिथि एवं प्रकार 14—09—2025 एवं भौतिक कब्जा ज्ञात ऋणभार ज्ञात ऋणभार ज्ञात नहीं	ऋण खाता संख्या SLPHGPRK0001167 के संबंध में रुपये 48,69,741/— (रुपये अड़तालीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ इकतालीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ इकतालीस मात्र) 09—जून—2025 तक एवं ऋण खाता संख्या SLPHGPRK0002419 के संबंध में रुपये 17,32,055/— (रुपये सत्रह लाख बत्तीस हजार पचपन मात्र) 09—जून—2025 तक और ऋण खाता संख्या SLPHGPRK0004230 के संबंध में रुपये 22,90,013/— (रुपये बाईस लाख नब्बे हजार तेरह मात्र) 09—जून—2025 तक + आगे संविदात्मक दर पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर मांग सूचना की तिथि : 18—जून—2025	 रु. 1,25,15,000 / — (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख पंद्रह हजार मात्र) बोली वृद्धि: रु. 10,000 / — और ऐसे गुणकों में धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रू.) रु. 12,51,500 / — (रूपये बारह लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र) ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि: 29—दिसम्बर—2025 समय पूर्वा. 10 बजे से अप. 05 बजे तक 	31—12— 2025 समय : पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक	श्री निखिल कुमार फोन नं. 7053869593 श्री अशफाक पटका फोन नं. 9819415477 011—40725822 कस्टमर केयर नंबर :— 022 — 40081572 सम्पत्ति निरीक्षण तिथि 26—दिसम्बर—2025 समय पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक
	संपत्ति का विवरण			

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली—110040 स्थित खसरा संख्या 280 का अंश रूप सम्पत्ति 2006/1, भूतल, बिना छत के अधिकार के, भूमि क्षेत्रफल 61 वर्ग गज और रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली—110040 स्थित खसरा संख्या 280 का अंश रूप सम्पत्ति 2006/1, प्रथम तल, बिना छत[ँ] के अधिकार के, भूमि क्षेत्रफल 122 वर्ग गज। उक्त संपत्ति की सीमाएं:-पूर्वः श्रीमती सूरिंदर कौर की संपत्ति, पश्चिमः रेलवे रोड, उत्तरः श्री सूरिंदर कौर की संपत्ति, दक्षिणः श्री ओम प्रकाश की संपत्ति

1) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया दूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड) की वेबसाइट देखें वेबसाइट 2) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी राशि आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से नीचे दिए गए खाता विवरण में जमा करनी होगी : बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड,


शाखा : बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, बैंक खाता संख्या : चालू खाता संख्या 911020045677633, आईएफएससी कोड : यूटीआईबी0000230

हस्ता. / –,प्राधिकृत अधिकारी–दूहोम फाइनैंस लिमिटेड तिथि : 24-11-2025 (पूर्वतः श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड)

THE BUSINESS DAILY

FOR DAILY BUSINESS







यादारे कळविण्यात येते की. श्री. किरण मलराज वोरा. मालक तसेच त्यांची पत्नी सौ. हर्ष किरण वोरा सहमालक हे फ्लॅट क्रमांक बी /१३०३. दीप को-ऑप हौसिंग सोसायटी. संभवनाथ रोड, डी.एन. नगर, अंधेरी (प), मुंबई ४०००५३ या सदर फ्लॅटचे समान संयुक्त मालक होते. श्री. किरण मुलराज वोरा यांचे १३/११/२०२३ रोजी निधन झाले असून त्यांच्या पश्चात खालील तीन विधिसम्मत वारस जिवंत आहेत : सौ. हर्षा किरण वोरा (सद्यः सहमालक) व त्यांचे दोन पुत्र :- (१) श्री. रितेश किरण वोरा, वय ४७ वर्षे (२) श्री. अशित किरण वोरा, वय

वरील नमूद केलेल्या मृत सदस्य श्री. किरण मुलराज वोरा यांच्या सोसायटीतील भांडवल मालमत्तेतील हक्क व स्वारस्य हस्तांतराबाबत, इतर कोणतेही वारस / दावा करणारे / हरकतीदार यांनी काहीही दावा / हरकत असल्यास, या सूचनेच्या प्रसिद्धीनंतर १५ (पंधरा) दिवसांच्य आत मूळ कागदपत्रांच्या प्रतींसह, दावा / हरकतीस समर्थन करणारे पुरावे यांची प्रत सोबत संलग्न करून सोसायटीकडे लेखी स्वरूपात सादर करावेत. वरील कालावधीत कोणताही दावा / हरकत प्राप्त न झाल्यास, सोसायटीला मृत सदस्याच्या शेअर्स व हितसंबंधांबाबत सोसायटीच्या उपनियमांनुसार पुढील कार्यवाही करण्यास मोकळीक राहील. दिनांक : २४ नोव्हेंबर २०२५, मुंबई.

डी.एन. नगर दीप को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि डी.एन. नगर, श्री संभवनाथ भगवान जैन मंदिर मार्ग, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३. मोबाइल : ८७६७८७१७१८.

हाराचा पत्ता : होरायझन बिल्डिंग, १ला मजला, रानडे रोड गोखले रोड जंक्शन, गोखले रोड (उत्तर), दादर (पश्चिम) मुंबई-४०० ०२८. फोन क्र. ०२२-६९४७६०१२/५४/५५/५७/५८

कब्जा सूचना (नियम ८(१) - स्थावर मिळकतीकरीता

दि सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट्स अँड एन्फोर्सेमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऑक्ट, २००२ (ऑक्ट ५४ सन २००२ दिनांक १७/१२/२००२) अन्वये कलम १३(१२) सहवाचत सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ३ अन्वये **१२.०८.२०२५ रोजीस मागणी सूचन** निर्गमित करुन कर्जदार/गहाणदार – मे. किर्ती एंटरप्रायजेस द्वारे त्याचे एकमेव मालक श्रीमती. प्रतिम अतुल अवस्थी, हमीदार- श्री. अतुल सिध्दीनाथ अवस्थी आणि श्री. राजेंद्र सत्यदेव पांडे यांना सुचनेत नमुद रक्कम रू. ९४,४६,६९१.७६ (रुपये चौऱ्याण्णव लाख सेहेचाळीस हजार सहाशे **एक्याण्णव आणि शहात्तर पैसे मात्र) अधिक त्यावरील पृढील व्याजाची** परतफेड करण्यात सदर सूचना ग्राप्तीच्या तारखेपासून ६० दिवसांत करण्यास सांगण्यात आले आहे. सदर मागणी सूचना वर्तमान पत्र म्हणजेच 'दि फ्रि प्रेस जर्नल'' (इंग्रजी) आणि ''नवशक्ति'' (मराठी) मुंबई आवृत्ती मध्ये ''पर्यायी सेवा सूचना म्हणून १०/०९/२०२५ रोजीस प्रकाशित झाली आहे.

कर्जदार /गहाणदार द्वारे त्याचे एकमेव मालक आणि हमीदार सदर रकमेची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरल्याने कर्जदार/गहाणदार द्वारे त्याचे एकमेव मालक आणि हमीदार तसेच सर्वसामान्य जनतेला सूचना देण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकारांनी येथे खाली वर्णन केलेल्या मिळकतीचा **अन्वयिक कब्जा** सदर ॲक्ट्रच्या कलम १३ च्य उप-कलम (४) सहवाचता सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८ अन्वये **२० नोव्हेंबर,** २०२५ रोजी प्राप्त अधिकारांचा वापर करून घेतला.

कर्जदार/गहाणदार द्वारे त्याचे एकमेव मालक आणि हमीदार तसेच सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे इशारा देण्यात येतो की उक्त मिळकतीशी व्यवहार करू नये व सदर मिळकतीशी केलेला कोणताही व्यवहार हा कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. च्या रक्कम रू. ९४,४६,६९१.७६ अधिक २६/०७/२०२५ पासून पुढील व्याज @ १४% व्याज मिळेपर्यंत प्रभारच्या भाराअधीन राहील.

कर्जदारांना तारण मालमत्ता परत करण्यासाठी कर्जदाराला उपलब्ध असलेल्या वेळेच्या संदर्भात सरफेर्स कायदा, २००२ च्या कलम १३ च्या उपकलम ८ मधील तरतुर्दीकडे लक्ष वेधले जात आहे.

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

अपार्टमेंट टाईप-ए१, **''पाल्म हिल्स रो व्हिलाज'' मधील रो व्हिला क्र**. **०७,** ज्याचे चटई क्षेत्र मोजमापि ७१.४३ चौ. मीटर्स अंदाजे सह जिमन क्षेत्र ७७.१७ चौ. मीटर्स, गट क्र. ६०७/२+६२९पी भाग धारक जिमनीवर बांधकामित, प्लॉट क्र. २ आणि ३, गाव गोंडे दमाला शिवार आणि इगतपुरी नगरपरिषदेच्या हद्दीत आणि नोंदणी आणि उप-नोंदणी तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक- ४२२ ४०३ येथील परिसराचे ते सर्व भाग आणि विभाग.

जे सीमाबध्द पुढीलप्रमाणे पूर्वेला किंवा त्या दिशेस: मोकळे

उतरेला किंवा त्या दिशेस: व्हिला क्र. ०६ पश्चिमेला किंवा त्या दिशेस: मोकळे दक्षिणेला किंवा त्या दिशेस: व्हिला क्र. ०८

जमिनीवरील हक्क. नामाधिकार आणि हितसंबंध. सामान्य सविधा आणि रस्त्यांचा अधिकार. आरामटार्य जागा आणि पार्किंगसह उपलब्ध असलेल्या सुविधांसह, शेअर प्रमाणपत्र आणि सदस्यता देखील सदर जागेर्श

दिनांक : २०.११.२०२५ ठिकाणः गाव गोंडे, ता. इगतपुरी

प्राधिकत अधिकारी सरफैसी ॲक्ट - २००२ अन्वये कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि.

(T) IDBI BANK

शाखेचा पत्ता - आयडीबीआय बँक, आयडीबीआय टॉवर, ७वा मजला, एनपीए मॅनेजमेंट ग्रुप, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई - ४००००५, महाराष्ट्र

कारणे दाखवा सूचना

कर्जदार: ऑफ्टेक लिमिटेड आणि नोंदणीकृत कार्यालयीन पत्ता - ऑफ्टेक हाऊस २६५, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०००२८

खाली नमूद केलेल्या संस्था / व्यक्तींना ह्या द्वारे कळविण्यात येते की, हेतुपुरस्सर कसुरवार करणाऱ्यांर्च ओळख पटविण्यासाठीच्या कार्यवाहीची सुरुवात करण्यात आली आहे, ज्याप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँक मास्टर डिरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स अँड लार्ज डिफॉल्टर्स दिनांक ३० जुलै, २०२४ (आरबीआय मास्टर डिरेक्शन) मध्ये नमूद केलेले आहे आणि आयडीबीआय बँकेकडून निर्गमित कार दाखवा नोटीस (एससीएन) दिनांक सप्टेंबर २६, २०२५ रोजी परत आली आहे / न दिलेली आहे.

नाव आणि पत्ता	पदनाम	हेतुपुरस्सर कसुरवार करीता निकष
ॲफ्टेक लि. आणि ॲफ्टेक हाऊस, २६५, वीर	कंपनी	खंड ३ (१) (टी) (i) (ए)
सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०००२८		
प्रमोद वेदपाल ब्रुटा आणि ३६६, वीर सावरकर	पूर्ण-वेळ	खंड ३ (१) (टी) (i) (ए)
मार्ग, दादर, महाराष्ट्र, ४०००२८, भारत	संचालक	
श्रीम. आदिती हिमांशु भट आणि ३६६, वीर	संचालक	खंड ३ (१) (टी) (i) (ए)
सावरकर मार्ग, दादर, महाराष्ट्र ४०००२८, भारत		
संदीप चिंतामणी सावे आणि ३६६, वीर सावरकर	संचालक	खंड ३ (१) (टी) (i) (ए)
मार्ग, दादर, महाराष्ट्र ४०००२८, भारत		
सुनील मधुकर देसाई आणि ३६६, वीर सावरकर	पूर्ण-वेळ	खंड ३ (१) (टी) (i) (ए)
मार्ग, दादर, महाराष्ट्र ४०००२८, भारत	संचालक	
श्री साई सुर्य प्रकासा श्रीकांतम राव आणि ३६६,	नॉन-	खंड ३ (१) (टी) (i) (ए)
वीर सावरकर मार्ग, दादर, महाराष्ट्र ४०००२८,	एक्झिक्युटिव्ह	
भारत	संचालक	

रससीएन बँक डीजीएम, एनपीए मॅनेजमेंट ग्रुप, आयडीबीआय बँक, आयडीबीआय टॉवर, ७वा मजला एनपीए मॅनेजमेंट ग्रुप, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई - ४००००५, महाराष्ट्र, ई-मेल आयडी imran.khan@idbi.co.in आणि anchal.mehra@idbi.co.in येथून प्रत्यक्ष व्यक्तीने किंवा अधिकृत प्रतिनिधीने ओळख पुरावा सादर करून प्राप्त करू शकता.

वरील व्यक्ती. जर त्यांना/त्याला/तिला असे वाटत असेल तर. या सचनेच्या तारखेपासन २१ दिवसांच्य आत कारण दाखवू शकते की त्यांना/त्याला/तिला हेतुपुरस्सर कसुरवार म्हणून का घोषित केले जाऊ नये

या प्रकाशनाच्या तारखेपासून २१ दिवसांच्या आत एससीएन विरुद्ध सादरीकरण/प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले नाही, तर असे गृहीत धरले जाईल की, त्यांच्याकडे सादर करण्यासाठी काहीही नाही आणि आयडीबीआय बँक लि. त्यांना म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी पुढे जाऊ शकते. हेतुपुरस्सर कसुरवार म्हणून घोषित केल्यानंतर, मास्टर निर्देशांनुसार आणि/किंवा प्रचलित) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वरील व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार बँकेकडे आहे.

(प्राधिकृत अधिकारी)

अर्ज क्र. एनसीएलटी ३ए याचिकेचे वर्णन करणारी जाहिरात (नियम ३५ पहा)

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ यांच्या समक्ष सीए (सीएए) २०४/एमबी/२०२५

सीपी (सीएए)/२३९/एमबी/२०२५

कंपनी कायदा, २०१३ च्या प्रकरणामध्ये;

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम २३० ते २३२ च्या प्रकरणामध्ये; आणि नोरोन्हा प्रायव्हेट लिमिटेड (पहिली हस्तांतरणकर्ता कंपनी) आणि लिलीव्हाइट

इन्ट्हेस्टमेंट अँड ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड (दुसरी हस्तांतरणकर्ता कंपनी) यांचे व्हल्पेक्युला ट्रेडिंग ॲंड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड (हस्तांतरण स्वीकारणारी कंपनी) आणि त्यांच्या संबंधित भागधारकांशी विलीनीकरण योजनेच्या बाबतीत.

सीआयएनः U92110MH1951PTC008639, नोंदणीकृत कार्यालयः ४था मजला, लिबर्टी बिल्डींग, मरिन लाईन्स, मंबई, महाराष्ट्र, भारत - ४०० ०२० 'लिलीव्हाइट इन्व्हेस्टमेंट अँड ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड' सीआयएनः U65990MH1981PTC024286, नोंदणीकृत कार्यालयः लिबर्टी बिल्डींग ४१/४२ न्यू मरिन लाईन्स, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - ४०० ०२० 'व्हल्पेक्युला ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड' सीआयएन: U51900MH1987PTC044939.

नोंदणीकृत कार्यालयः लिबर्टी बिल्डींग ४१/४२ न्यू मरिन लाईन्स, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत - ४०० ०२०. ्याचिकाकर्ता कंपन

याचिकेची सूचना

नोरोन्हा प्रायव्हेट लिमिटेड (पहिली हस्तांतरणकर्ता कंपनी) आणि लिलीव्हाइट इन्व्हेस्टमेंट अँड ट्रेडिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड (दुसरी हस्तांतरणकर्ता कंपनी) यांचे व्हल्पेक्युला ट्रेडिंग ॲंड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड (हॅस्तांतरण स्वीकारणारी कंपनी) आणि त्याँच्या संबंधित भागधारकांशी वेलीनीकरणाच्या योजनास मंजरीकरिता कंपनी कायदा. २०१३ च्या कलम २३० ते २३२ अन्वये संयक याचिका उपरोल्लेखित याचिकाकर्ता कंपन्यांनी दि. २८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी दाखल केली होती आ सदर याचिका दि. १० नोव्हेंबर, २०२५ रोजी स्वीकारण्यात आली आहे आणि दि. १८ डिसेंबर, २०२५ रोजी मंबई येथील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण खंडपिठासमक्ष सनावणीकरिता निश्चित करण्य

सदर याचिकेला समर्थन किंवा विरोध करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने याचिकाकर्त्याचे ॲडव्होके श्री. अरविंद मनोहर, भागीदार, मेसर्स एएटी लीगल अँड कं., यांना डीबीएस हेरिटेज हाऊस, आझा मैदानाजवळ, फोर्ट, सुंबई - ४००००१, महाराष्ट्र, भारत, ई-मेर्ल: aatlegalandco@gmail.com येथे त्याच्या/तिच्या हेतूवी सुवना, त्याच्या/तिच्या किंवा त्याच्या/तिच्या विकलाच्या स्वाक्षरीसह, त्याचे/तिचे नाव आणि पत्ता देऊन याचिकेच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या तारखेच्या दोन दिवस आधी याचिक विकलांपर्यंत पोहोच् शकेल अशा पद्धतीने पाठवावी. जर तो/ती सदर याचिकेला विरोध करू इच्छित असेल तर अशा सूचनेसोबत विरोधाचे कारण किंवा त्याच्या/तिच्या शपथपत्राची प्रत सादर करावी लागेल. सदर् याचिकेची प्रत याचिकाकर्त्याच्या विकलांकडून ज्या व्यक्तीला आवश्यक असेल त्यांना विहित शुल्क भरू दिली जाईल.

मुंबई, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२५ श्री. अरविंद मनोहर

मे. एएटी लीगल अँड कं.

'नोरोन्हा प्रायव्हेट लिमिटेड



जाहीर सूचना

याद्वारे जाहीर सूचना देण्यात येते की, आम्ही रेमंड रिअल्टी लिमिटेड यांच्या मौजे पाच पाखाडी. तालुका ठाणे, जिल्हा ठाणे येथील यात याखाली लिहिलेल्या **परिशिष्टामध्ये** अधिक विशेषरित्य वर्णन केलेल्या जिमनींच्या त्या सर्व तुकड्याच्या आणि भागाच्या (यात यानंतर "सदर मालमत्ता" असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) संबंधातील मालकी अधिकार, हक्क आणि हितसंबंधांची चौकशी करीत आहोत

नदर मालमत्तेच्या किंवा त्यातील कोणत्याही भागाच्या संबंधातील विक्री, हस्तांतरण, अदलाबदल अभिहस्तांकन, गहाण, हक्कविलेख अनामत करून ठेवलेले गहाण, आकार, बक्षिस, न्यास प्रसंविदा, एकाधिकार, वारसा, दावा, कब्जा, भाडेपट्टा, पोट-भाडेपट्टा, अनुज्ञप्ती, धारणाधिकार शेअर, भाडेदारी, पोट-भाडेदारी, परिरक्षा, कब्जा, सुविधाधिकार, मृत्युपत्र, मृत्युपत्रीत देणगी, भार, एफएसआय वापर किंवा अन्य काही असेल तर त्यादारे कोणताही दावा. अधिकार, हक्क इस्टेट किंवा हितसंबंध, असेल अशा सर्व व्यक्तींनी निम्नस्वाक्षरीकर्ता यांना त्यांच्या वाडिया घांदी आणि कं., वकील, सॉलीसीटर्स आणि नोटरी, एन. एम. वाडिया बिल्डींग, दसरा मजला, १२३, **महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई–४**००००**१** येथील कार्यालयामध्ये या सूचर्नेच्या जाहिरातीच्या तारखेपासून **१४ (चौदा) दिवसांच्या** आत त्यासंबंधातील दस्तावेजी पुराव्याच्या नोटरी केलेल्या ामाणित सत्य प्रतींसह लेखी स्वरूपामध्ये ज्ञात होण्यासाठी कळवावे, अशी त्यांना विनंती करण्यात येत आहे. अन्यथा अशा व्यक्तीचे /व्यक्तींचे अशा प्रकारचे कोणतेही दावे, जर काही असतील त त्यांचा सर्व आशय आणि उद्देशाकरीता अधित्याग आणि/किंवा परित्याग करण्यात आलेला आहे असे समजण्यात येईल आणि आमच्या अशिलांना हक्क विलेखांवरील अहवाल निर्गमित करण्यात येईल आणि उपरोक्त मालमत्तेतील कोणताही अशा प्रकारचा तथाकथित दावा किंवा हितसंबंध यांच्या संदर्भाशिवाय व्यवहार पूर्ण करण्यात येईल. सदर १४ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर चेतलेली हरकत आमच्या अशिलोंवर बंधनकारक राहणार नाही

परिशिष्ट

मौजे पाच पाखाडी, तालुका ठाणे, जिल्हा ठाणे येथील आणि नोंदणी जिल्हा ठाणे मधील आणि ठाणे महानगर पालिकेच्या सिमेतील ७/९२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक ६४/ब/३ क्षेत्रफळ ७९७० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक ६४/ब/४ क्षेत्रफळ ३५०.०० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १३१/ब क्षेत्रफळ ६९१००.०० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १३७/१/अ क्षेत्रफळ २२७०.०० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १३७/१/ब क्षेत्रफळ १४५० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १३८/११ क्षेत्रफळ ४८० चौरस मीटर. ७/१२ उताऱ्यानसार सर्व्हे क्रमांक १३९/१/ब क्षेत्रफळ ११८९०.०० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १३९/२/अ क्षेत्रफळ ४७४०.८१ चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १३९/३ क्षेत्रफळ १३७० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे १३९/४/ब क्षेत्रफळ ६११९.०० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांव १४०/ब/१ क्षेत्रफळ २४८० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १४०/ब/२/अ क्षेत्रफळ १५७० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १४०/ब/२/ब क्षेत्रफळ ९८० चौरस मीटर, ७/१२ उताऱ्यानुसार सर्व्हे क्रमांक १३७/२ क्षेत्रफळ ६०० चौरस मीटर जिमनीचे ते

> वाडिया घांदी आणि कं सुरज एन.जुनेजा



बोली मागविणारी सूचना (२रे निमंत्रण)

एनएमएमएल-१ च्या केंद्रीय विहार मेट्रो स्टेशन येथे स्पीड ब्रेकर्स आणि पियर क्र. पी९२ पासून पी९७ पर्यंत व्हायाडकटच्या बाजुने मोनो ॲब्सॉर्बन्ट नॉईज बॅरिअर पुरवणे आणि बसवणे. (२रे निमंत्रण)

सिडको ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड ई-निविदा प्रक्रिये मार्फत खाली वर्णन केलेल्या कामासाठी ब्रिजेस/ मेट्रो रेल्वे व्हायाडकट/ मोनोरेल व्हायाडकट/ फ्लायओव्हर्स/ रेल्वे ब्रीजेस/ रोडवेज सारखे समान स्वरुपाचे काम पूर्ण केलेल्या अनिवार्य पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सिडको लि. कडे किंवा सुयोग्य वर्ग आणि प्रवर्गामध्ये केंद्र सरकारकडे किंवा महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि त्यांचे उपक्रम यांचेकडे नोंदणीकृत अनुभवी संभाव्य बोलीदारांकडून "ऑनलाईन" बाब दर टक्नेवारी बोली मागवत आहे.

१. कामाचे नाव : एनएमएमएल-१ च्या केंद्रीय विहार मेट्रो स्टेशन येथे स्पीड ब्रेकर्स आणि पियर क्र. पी९२ पासून पी९७ पर्यंत व्हायाडकटच्या बाजुने मोनो ॲब्सॉर्बन्ट नॉईज बॅरिअर पुरवणे आणि बसवणे. (२रे निमंत्रण) २. सी.ए. क्र. : ०३/सिडको/ईई(एमआर-॥)/२०२५-२६ ३. बोलीसाठी ठेवलेला खर्च : रु. ६७,५६,३०८.०० (जीएसटी वगळून) ४. इ.अ.र. : रु. ६८,०००/ - ५. नोंदणी वर्ग : वर्ग IV आणि वरील **६. पूर्तता कालावधी** : १८० (एकशेऐंशी) दिवस म्हणजेच ६ (सहा) महीने (पावसाळ्या सहीत) ७. निविदा प्रक्रिया शुल्क : रु. ५,९००.०० (१८% जीएसटीसह (विना-परतावा))

बोली कार्यक्रमासह बोली दस्तावेज २५/११/२०२५ रोजी सं. ०५.०१ वा. पासून वेबसाईट <u>https://mahatenders.gov.in</u> वर उपलब्ध होतील. सुपरिन्टेडींग इंजिनियर

CIN - U99999 MH 1970 SGC-014574 www.cidco.maharashtra.gov.in

(मेट्रो) सिडको/जनसंपर्क/३६३/२०२५-२६

एडेलवैस ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. * Edelweiss सीआयएन : यु६७१००एमएच२००७पीएलसी१७४७५९ एडेलवैस हाऊस, ऑफ सीएसटी रोड, कालिना, मुंबई-४०००९८

कब्जा सूचना (स्थावर मिळकतकरिता)

ज्याअर्थी, अधोरेखित स्वाक्षरी करणारे **एडेलवाइंस ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यांचे प्राधिकृत** अधिकारी, ईएआरसी टस्ट एससी १५८ (''ईएआरसी'') या ट्रस्टचे टस्टी या नात्चााने कार्यरत असून नेपच्यून व्हेन्चर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (''कंपनी / ''कर्जदार'') यांचे सिक्युर्ड क्रेडिटर आहेत मिक्यरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ तसेच सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ मधील रूल ३ सहपठित कलम १३(१२) अंतर्गत अधिदत्त अधिकारांचा वापर करून, अधोरेखित यांनी १६.०५.२०१९ रोजी कलम १३(२) अंतर्गत मागणी नोटीस जारी केली होती. सदर मागणी नोटीसमध्ये कर्जदार **श्री. नयन शाह (वैयक्तिक हमीदार)** श्री. नयन भेदा (वैयक्तिक हमीदार), श्री. सचिन देशमुख (वैयक्तिक हमीदार) आणि नेपच्यून ्रता प्रचार पद्मा (चनावराक हमादार), त्रा. सावन दरामुख (वयाक्तक हमादार) आाण नेपच्यून डेव्हलपर्स लिमिटेड (कॉर्पोरेट हमीदार) यांना खाली नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम भरण्याची मागणी करण्यात आली होती रु. ३१०,१४,१३,५५४/-(भारतीय रुपये तीनशे दहा कोटी चीदा लाख तेरा हजार पाचशे चीपन्न फक्त) ही रक्कम १०.०५.२०१९ रोजी थिकत होती, तसेच व्याज, खर्च, खर्चे व इतर आकारांसह, सदर नोटीस

कर्जटार इमीटार आणि ग्रहाणटार यांनी वरील रकमेची प्रत्येख करण्यात अपयश आल्यामळे कर्जटार इमीटार आणि गहाणदार यांना तसेच सर्वसाधारण जनतेस हे सूचित करण्यात येते की अधोरेखित स्वाक्षरी करणारे, ईएआरसी चे प्राधिकृत अधिकारी म्हणून, सदर सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ च्या कलम १३(४) सहपठित सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, २००२ मधील रूल ८ अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून खाली वर्णन केलेल्या मालमत्तेच ताबा **२१ नोव्हेंबर २०२५** रोजी घेतलेला आहे.

कर्जदार, हमीदार आणि गहाणदार तसेच सर्वसाधारण जनतेस याप्रसंगी इशारा देण्यात येतो की त्यांनी सदर मालमर्तिशी कोणत्यााही प्रकारे व्यवहार करू नयेत. मालमर्तिशी केलेला कोणताही व्यवहार हा ईएआरसीच्या प्रलंबित थकबाकीच्या रु. ३१०,१४,१३,५५४/**– (भारतीय रुपये तीनशे दहा कोटी चौदा लाख तेरा हजार** पाचशे चौपन्न फक्त) एकत्रित देणी तसेच पृढील व्याज, खर्च, खर्चे आणि इतर आकारांच्या अधीन राहील, जसे की खाली अधिक तपशीलवार नमूद केले आहे. तारण मत्तांच्या विमोचनासाठी उपलब्ध असलेल्या वेळेसंबंधी ॲक्टचे कलम १३ चे पोटकलम (८) च्या तरतुर्दीकडे कर्जदार आणि गहाणदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

तारण मत्तेचे वर्णन मॅगनेट मॉल येथे स्थित भांडुप जिमन धारक सीटीएस क्र. ३७२, ३७२/१-६५, गाव कांजूर, तालुका कुर्ला, एस वॉर्ड, एल.बी.एस.मार्ग, मंगत्रम पेट्रोल पंप जनळ, भांडुप पश्चिम, मुंबई-४०००७८ (२० ऑक्टोबर २०१५ च्या तारणखताच्या करारानुसार आणि ३१ जुलै २०१४ च्या तारणखताच्या करारानुसार)., खालीलप्रमाणे सीमाबद्धः उत्तरः जनता मार्केट रस्ता, **दक्षिणः** मंगत्रम पेट्रोल पंप, **पूर्वः** एल.बी.एस.रस्ता, **पश्चिमः** खाणीचा रस्ता. त्यावरील सर्वं बांधकामे, फिक्स्चर आणि फिटिंग्ज आणि पृथ्वीला जोडलेले किंवा पृथ्वीला जोडलेल्या कोणत्या

गोष्टीला कायमचे जोडलेले सर्व प्लांट आणि यंत्रसामग्रीसह न विकलेल्या इन्व्हेंटरीची माहिती-

۲.	ज।	८०८	१०८३	74.	ज।	। डा०१	
٦.	जी	ए०९		२६.	अ	डी२१	Г
₹.	जी	बी०१	१०८५	२७.	जी	ए१४	Г
٧.	जी	बी१६		२८.	१	बी१०९	
ч.	जी	सी०१	११४९	२९.	8	बी११०	Г
ξ.	जी	सी१४		₹0.	१	सी१०५	
७.	जी	ए०२	३५७	३१.	१	डी१०३	
۷.	जी	ए०३	३६४	३२.	१	डी१०४	
٩.	जी	ए०४	३६४	33.	१	डी११२	
१०.	जी	ए०५	३५७	₹४.	8	ए१०५	
११.	जी	ए०७	८५४	३५.	१	ए११६	
१२.	जी	ए१२	१८०९	₹ξ.	१	बी१०२	

अ. क. मजला युनिट क्रमांक चटई क्षेत्र (चौ. फू.) २४. जी डी२३

٠.	711	414.7	7007	١٠.	711	///	22//
٧.	जी	बी१६		२८.	१	बी१०९	866
ч.	जी	सी०१	११४९	२९.	१	बी११०	338
ξ.	जी	सी१४		₹0.	१	सी१०५	३६८
७.	जी	ए०२	३५७	३१.	१	डी१०३	४८५
٤.	जी	ए०३	३६४	३२.	१	डी१०४	५१७
٩.	जी	ए०४	३६४	33.	१	डी११२	४८९
१०.	जी	ए०५	३५७	₹४.	१	ए१०५	३६८
११.	जी	ए०७	८५४	३५.	8	ए११६	४८६
१२.	जी	ए१२	१८०९	₹.	१	बी१०२	422
१३.	जी	ए१३	<i>હ</i> હધ્	३७.	१	इ११२	۵۵۵
१४.	जी	बी१४	५८३	३८.	१	इ१०३	१४३७
१५.	जी	बी०३	३६४	३९.	१	इ१०१	१२४८
१६.	जी	सी०४	४६१	80.	१	ए११९	866
१७.	जी	सी१५	६०२	४१.	7	डी२१५	५०५
१८.	जी	सी१६	७६९	82.	2	ए२१९	866
१९.	जी	<u> </u> डी०७	<i>હ</i> 48	٧٤.	æ	ए३०७	६०३
२०.	जी	डी१२	६३९	88.	ş	ए३०६ए	९१७
२१.	जी	डी१४	६३७	४५.	3	एफ३०१	२४४८
२२.	जी	डी२०	६३७	४६.	ş	बी३१४	378
२३.	जी	सी०३	३६४	४७.	Х	४०१	१९,६६६
दिनांकः २	8/88/	२०२५				सही/- प्र	धिकृत अधिक
ठिकाण : मुंबई, महाराष्ट्र			एडल	एडलवाईज ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड करि			
		••			-		

एडलवाईज ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड करिता (ईएआरसी ट्रस्ट एससी १५८ चे ट्रस्टी म्हणून तिचे क्षमतेत कार्यरत)

व्हाईट हाऊसमध्ये ममदानी यांचे ट्रम्प यांच्याकडून स्वागत

दोन्ही नेत्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा ; भारत-पाकिस्तान युद्धाबाबतही चर्चा

न्यु यॉर्क/वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि न्यू यॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी या एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या नेत्यांची भेट झाली आहे. असे असतानाही दोन्ही नेत्यांमध्ये विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून त्यावेळी

भारत-पाकिस्तान युद्ध आपणच

थांबविल्याचा दावा ट्रम्प यांनी

पुन्हा एकदा केल्याचे वृत्त आहे.

व्हाईट हाऊस या अधिकृत निवासस्थानी या दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. ममदानी हे भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक असून यांना भारताविषयी विशेष प्रेम आहे. न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीदरम्यान ममदानी यांनी ट्रम्प यांची फॅसिस्ट म ह । प ौर प द ।च्य । म्हणून संभावना केली होती. त्यानंतर ट्रम्प यांनीदेखील ममदानी यांच्यावर कठोर शब्दांत टीका केली होती.

सकारात्मक बैठक

OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Equity Shares in the Offer).

Letter of Offer.

Sr. No Particulars

Name of the Target Company

Name of the Manager to the Offer:

Name of the Registrar to the Offer:

a. Date of Opening of the Offer:

Date of Payment of Consideration:

b. Date of Closure of the Offer:

Offer Price (per equity share)

triggered the regulations

· Number of shares acquired

· Price of the shares acquired

· % of the shares acquired

Statement (4)

Number

Number

Number

Notes:

१०१५

२९७

५२८

Aggregate number of shares tendered

Aggregate number of shares accepted

multiplied by offer price per share)

Size of the Offer (Number of Equity hares

Shareholding of the Acquirer along with PAC

Equity Shares proposed to be acquired which

Equity Shares acquired after Detailed Public

Equity Shares Acquired by way of Open Offer

Post offer shareholding of Acquirers and the PAC

· % of Fully Diluted Equity Share Capital

• % of Fully Diluted Equity Share Capital

Pre & Post offer shareholding of the Public

. % of Fully Diluted Equity Share Capital

(2) 17 Equity Shares were only tendered in dematerialized form.

(4) Excluding those Equity Shares specified in Sr. No. 7.6 and 7.8.

(5) Equity Shares acquired by the Acquirer 1 pursuant to Open Offer

before Agreements/Public Announcement

Name of the Acquirer

Name of the PAC:

Offer Details:

7. Details of Acquisition:

Sr. No. Particulars

आणि ममदानी यांची भेट घडून आली आहे. ही भेट झाल्यानंतर मात्र ट्रम्प यांचा सूर बदलला आहे. ते चांगलेच नरमले असून ट्रम्प यांची बदललेली भूमिका पाहून जगभरात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ट्रम्प आणि ममदानी यांच्यात झालेली ही बैठक चांगलीच सकारात्मक राहिली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांचे मतभेद समोर येतील आणि त्याचे उमटतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु या उलट दोन्ही नेत्यांनी आमच्यातील चर्चा सकारात्मक

व्हाईट हाऊसमध्ये स्वागत

यापूर्वी न्यू यॉर्क शहराच्या निवडणुकीदरम्यान ट्रम्प यांनी डाव्या विचारसरणीचा वेडा असे म्हणत ममदानी यांनीही ट्रम्प यांच्या या पार्श्वभूमीवर आता ट्रम्प धोरणांवर जाहीरपणे आक्षेप

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED FOR THE ATTENTION

CUPID BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED

Corporate Identification Number: L11010MH1985PLC036665;

Registered Office: Block No. 2, Parekh Nagar, Near BMC Hospital, S V Road, Kandivali (West), Mumba Maharashtra, 400067 **Tel. No.:** +91-8097894999; **Email:** cs@cupidalcobev.com: **Website:** www.cupidalcobev.com OPEN OFFER BY ERRAMILLI VENKATACHALAM PRASAD ("ACQUIRER 1") AND RODRIGUES BHAGVANDAS LILY ("ACQUIRER

(HEREINAFTER ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 COLLECTIVELY RÉFERRED TO AS "ACQUIRERS") TOGETHER WITH

ERRAMILLI RISHAB ("PERSON ACTING IN CONCERT" OR "PAC") TO ACQUIRE UPTO 9.60.000* (NINE LAKH SIXTY

THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 71.80/- (RUPEES SEVENTY ONE POINT EIGHT ZERO ONLY) ("OFFER PRICE") INCLUDING INTEREST OF ₹ 11.80\$/- (RUPEES ELEVEN POINT

EIGHT ZERO ONLY). PAYABLE IN CASH PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 6.89.28.000/- (RUPEES SIX CRORE

EIGHTY NINE LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND ONLY), TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CUPID BREWERIES AND

DISTILLERIES LIMITED ("TARGET COMPANY") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS,

*As per SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Open Offer size under regulation 7(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, shall be

for at least 26% (twenty six percent) of the total share capital of a target company, as of 10th working day from the closure of

the tendering period. However, the public shareholding of the Target Company is 1.85% (one point eight five percent) of the Existing Voting share Capital of the Target Company excluding the public preferential allottees who are considered as Deemed

PAC to Acquirers for this open offer and are ineligible to participate in the open offer. Accordingly open offer is made to public

§The interest is calculated @ 10% (Ten Percent) per annum for the period of 717 (Seven hundred and seventeen) days starting

from December 08, 2023, upto November 24, 2025 (Date of payment to successful Public Shareholders who tender their

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited

"Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirers and the PAC, in connection with the offer made by the Acquirers and the

PAC, pursuant to and in accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Post Offer Advertisement

is to be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated February 07, 2025 ("PA"); (b) the

Detailed Public Statement published on February 14, 2025 in Financial Express (English) all editions, Jansatta (Hindi) all editions and Navshakti (Marathi) Mumbai Edition – Being the regional language of Mumbai, where the Registered Office of the

Target Company is located and the Stock Exchange where the equity shares of the Target Company are listed ("DPS"); (c) the

Draft Letter of Offer dated February 24, 2025 ("DLOF") (d) the Corrigendum dated September 23, 2025 ("First Corrigendum")

(e) the Corrigendum dated October 13, 2025 ("Second Corrigendum") (f) the Letter of Offer dated October 13, 2025 ("LOF")

along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement; and (g) the offer opening public announcement was published on

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open

Cupid Breweries and Distilleries Limited

Saffron Capital Advisors Private Limited

Cameo Corporate Services Limited

Erramilli Rishab ("PAC")

Monday, October 27, 2025

Monday, November 10, 2025

Monday, November 17, 2025

1. Erramilli Venkatachalam Prasad ("Acquirer 1"

2. Rodrigues Bhagvandas Lily ("Acquirer 2")

Proposed in the LOF (1)

(assuming full acceptances

in this Offer)

9.60.000

9.60.000

₹ 6.89.28.000/

(0.00%)

2 60 32 16

(50.08%)

Nil

NA

(0.00%)

9 60 000

(1.85%)

2.69.92.167

(51.92%)

Pre Offer (7)

9.60.000

1.85%

Post Offer

2.49.90.835

48 08%

Actuals (1)

₹ 71.80/-

17 (2)

₹ 1.220.60/

(0.00%)

2 60 32 167

(50.08%)

Nil

NA

(0.00%)

17 (5)

(0.00%)

2.60.32.184 (6)

(50.08%)

Pre Offer (7)

9.60.000

Post Offer

2.59.50.818

49.92%

Details

This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published

shareholders who holds 1.85% (one point eight five percent) of Existing Voting share Capital of the Target Company.

2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") ("OFFER" OR "OPEN OFFER").

October 24, 2025 in all the newspapers in which the DPS was published.

भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविल्याचा

दरम्यान, दोन्ही नेत्यांच्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविल्याचा दावा केला . भारत आणि पाकिस्तानसह आपण एकूण आढ देशांचे शांतता करार केल्याचेही ट्रम्प म्हणाले . ट्रम्प यांनी आतापर्यंत जवळपास ६० हून अधिक वेळा भारत– पाकिस्तान युद्ध थांबविल्याचा दावा केला आहे . मात्र भारताने सातत्याने त्याचा इन्कार केला

घेतला होता. असे असले तरी ट्रम्प यांनी ममदानी यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये जोरदार स्वागत केले. सकारात्मक बैठक झाली. शहर सुरक्षेसाठी प्रयत्न

न्यु यॉर्क शहराच्या महारपौर-पदाच्या निवडणुकीदरम्यान

ममदानी निवडून आले तर मी न्यू यॉर्क शहराचा निधी रोखून धरेन, अशी उघड धमकीच ट्रम्प यांनी दिली होती. आता मात्र त्यांनी न्यू शहराचा करण्याबाबत तसेच हे शहर अधिक सुरक्षित कसे होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. तसेच न्यू यॉर्क शहराच्या विकासासाठी मी ममदानी यांची मदत करेन. प्रत्येकाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी, मजबूत आणि सुरक्षित न्यू यॉर्कच्या निर्मितीसाठी मी ही मदत करणार आहे, असे ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. दुसरीकडे ममदानी यांनीही ट्रम्प त्यांचे कौतुक केले. ट्रम्प यांच्यासोबतच्या आमच्यातील मतभेदांवर चर्चा झाली नाही. या उलट न्यू यॉर्क शहरातील लोकांचे जीवनमान कसे चांगले होईल याबाबत आमच्यात चर्चा झाली, अशी माहिती ममदानी यांनी दिली.

डॉक्टरवर कारवाई ; सरकारची काढली खरडपट्टी

नवी दिल्ली : आमदार आल्यानंतर उभे राहिले नाहीत कारवाई केल्याबद्दल पंजाब व हरयाणा हायकोटनि हरयाणा सरकारची खरडपट्टी काढतानाच सरकारला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

कोविड महामारीदरम्यान डॉ. मनोज आपत्कालीन विभागात रुग्णांच्या उपचारात व्यग्र असताना आमदार आले. डॉक्टर खुर्चीतून उठले नाहीत म्हणून आमदारांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. डॉक्टरांनी आमदारांना ओळखले नाही आणि न उभे राहण्यामागे कुठलाही जाणीवपूर्वक अनादर करण्याचा हेतू नव्हता, असा खुलासाही दिला. मात्र, प्रशासनाने नोटीस व कारवाई प्रलंबित ठेवली. २०२४ मध्ये डॉ. मनोजना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला. त्यांनी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले रुग्णालयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मागितले. मात्र, शिस्तभंग कारवाई प्रलंबित आहे म्हणत नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले. डॉक्टरांनी हायकोर्टात याला आव्हान दिले. कोर्टाने राज्याच्या भूमिकेवर तीव्र टीका करत सरकारला दंड

हैदराबाद विमानतळाला बॉम्बची धमकी

मुंबई : हैदराबाद विमानतळाला ई-मेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाल्याने बहरीन-हैदराबाद विमान मुंबईत वळवण्यात आले. रविवारी पहाटे ३ वाजता हैदराबाद विमानतळाला एक मेल आला. यात गल्फ एअरलाईनच्या 'जीएफ-२७४' बहरीन-हैदराबाद विमानात बॉम्ब असल्याचे म्हटले यानंतर हैदराबादला येणारे विमान तत्काळ मुंबईला वळवण्यात आले.

विमानात एकुण १५४ प्रवासी होते. मुंबई विमानतळावर उतरताच सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आले. विमानाची तपासणी केली असता कोणतीही संशयित वस्तू आढळली नाही. यानंतर विमान मुंबईहून रवाना करण्यात आले आणि ११.३१ वाजता हैदराबादला पोहचले.

याआधी हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बॉम्बच्या धमकीचा मेल शनिवारी आला होता. सुरक्षा यंत्रणांनी तत्काळ विमानतळ परिसर मोकळा करत तपासणी केली असता ही अफवा असल्याचे निष्पन्न झाले. बॉम्बचा खोटा मेल पाठवणाऱ्याचा पोलीस शोध घेत

(7) Representing 1.85% (One Point Eight Five Percent) of the Existing Voting share Capital of the Target Company on a fully The Acquirers and the PAC accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also

for the obligations under SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at (www.sebi.gov.in). BSE at

(www.bseindia.com), Manager to the Offer at (www.saffronadvisor.com) and the registered office of the Target Company. All undefined capitalized terms used herein shall have the same meaning as ascribed to such terms in the Letter of offer. ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE REGISTRAR TO THE OFFER

(1) Percentages disclosed in the table above are computed basis the Existing Voting Share Capital of Target Company.

demat escrow account as on date and yet to be transfer to the respective individual account of the Acquirers.

(6) Including 2,60,32,167 Equity Shares acquired by the Acquirers pursuant to preferential issued on April 11, 2025.

(3) The Acquirers were allotted equity shares pursuant to preferential issued on April 11, 2025, which are parked in a separate

ACQUIRERS AND THE PAC SAFFRON

Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, Andheri-Kurla Road, J. B. Nagar Andheri (East), Mumbai-400 059, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 49730394;

Email id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor Grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration No.: INM000011211 Validity: Permanent

Contact Person: Saurabh Gaikwad / Satej Darde Place: Telangana, Date: November 22, 2025

Cameo Corporate Services Limited

Validity: Permanent

Contact Person: Sreepriya K

Subramanian Building, No.1, Club House Road Chennai – 600 002, Tamil Nadu, India. Tel No.: +91 44 40020700 / 40020706/ 40020741 /40020780 Email: priya@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com

Investor grievance id: investor@cameoindia.com SEBI Registration Number: INR000003753